



**IQAC MEETING REPORT (2022-23/1)**

**Date- 02-11-2022**

A meeting of IQAC committee was held in chairmanship of the principal Prof. Sumita Srivastava on 02 November 2022 to discuss about several aspects of NAAC process. IQAC coordinator Shri. Parmanand Chauhan welcomed all the members of IQAC and introduced the agenda of meeting to all. The major agenda was to make action plan for documentation of NAAC accreditation. The following minutes were recorded in the meeting:

1. Seven criteria of NAAC were divided among the teachers to complete NAAC process as earliest as possible.  
Shri Sandeep Kumar- Criteria 1 and 2  
Dr. Madhu Bala Juwantha - Criteria 3 and 4  
Dr. Dinesh Chandra - Criteria 5 and 6  
Shri Chattar Singh - Criteria 7 and General profile
2. To start the process of data collection after studying current guidelines of NAAC carefully.
3. All members were directed to study the manual of NAAC till 05 November 2022.
4. To present the progress report of assigned criteria in the next meeting proposed on 10 November 2022.

Meeting was ended with vote of thanks expressed by IQAC coordinator Shri Parmanand Chauhan. Following members were present in the meeting.

1. Shri Parmanand Chauhan- IQAC Coordinator
2. Shri Sandeep Kumar
3. Dr. Dinesh Chandra
4. Dr. Madhu Bala Juwantha
5. Sri Chattar Singh

IQAC Coordinator





Principal

आज दिनांक 02 नवम्बर 2022 को IQAC के सभी सदस्यों के साथ एक बैठक की गई। बैठक में नैक प्रक्रिया के सम्बन्ध में अनेक बिन्दुओं पर वार्तालाप किया गया। विगत पांच वर्षों के आंकड़ों के संग्रह के सम्बन्ध में एवं नैक के सात मानदण्डों के सम्बन्ध में बियर विशर्षा के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये-

- 1- नैक से सम्बन्धित सातों मानदण्डों (Seven Criteria) को प्राध्यापकों के बीच वितरण किया गया जिससे कि नैक प्रक्रिया में तेजी लाया जा सके -
  - 1- श्री संदीप कुमार - मानदण्ड 1 और 2.
  - 2- डॉ. दिनेश चन्द्र - मानदण्ड 5 और 6.
  - 3- डॉ. मधुबाला जुवाँठा - मानदण्ड 3 और 4.
  - 4- श्री चतर सिंह - मानदण्ड - 7 और सामान्य दिशा निर्देश।
- 2- नैक से सम्बन्धित मानदण्डों का अध्ययन कर दिनांक 05-11-2022 तक डाटा संग्रह हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ करना।
- 3- सभी सदस्य नैक से सम्बन्धित नियम पुस्तक (मैन्युअल) का अध्ययन कर दिनांक 05-11-2022 तक पूरा कर लेंगे।

4- IQAC की अगली बैठक दिनांक 10 नवम्बर 2022 को प्रस्तावित है।


बैठक में उपास्थित सदस्य -

- 1- श्री संदीप कुमार - 
- 2- डॉ० दिनेश चन्द्र - 
- 3- डॉ० मधु खाला जुवाँडा - 
- 4- श्री चतर सिंह - 

Seen

Sumita  
02.11.2022

Principal  
Govt Degree College  
Nanbajh (Chri Garhwal)

  
(IQAC - Coordinator)



**IQAC MEETING REPORT (2022-23/2)**


**Date-11-11-2022**


A meeting was held by IQAC/NAAC coordinator under chairmanship of Principal Prof. Sumita Srivastava with all the members of IQAC on 11 November 2022. After welcoming all the members IQAC coordinator Shri Parmanand Chauhan put forward the agenda of the meeting, which was to discuss the problems faced by members during the data collection for NAAC. The following points and activities were focused in the meeting:

1. The SoP and excel sheets were distributed among the members and directions have been given to start documentation process accordingly.
2. To note down those metrics for which documents are not available.
3. All members were distributed required stationary for better documentation and collection of information related to assigned criteria.
4. To understand the collection of data and maintenance of record as per the guidelines of NAAC.
5. To discuss about those documents or records in next meeting, which are not being found pertaining to any criteria.
6. To be ready with progress report of each key indicator in the next d meeting proposed on 15 November 2022.

Meeting was ended with vote of thanks expressed by IQAC coordinator Shri Parmanand Chauhan. Following members were present in the meeting.

1. Shri Parmanand Chauhan- IQAC Coordinator
2. Shri Sandeep Kumar
3. Dr. Dinesh Chandra
4. Dr. Madhu Bala Juwantha
5. Sri Chattar Singh

  
IQAC Coordinator

  
Principal

बैंठक - 2 / 2022-23

आप दिनांक 11 नवम्बर 2022 को सम्बन्धक (IOMC) की अध्यक्षता में बैंक के सभी सदस्यों के साथ एक बैंठक की गई। बैंठक में बैंक प्रक्रिया में कार्रवाईयों एवं समाधानों पर चर्चा की गई। बैंठक में विभिन्न मापदण्डों से सम्बन्धित बैंक द्वारा दिये गये निर्देशों का अन्वयन करते गये सूचनाओं के आधार पर कार्य करने के लिए चर्चा की गई। बैंठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर निर्णय लिए गये-

- 1- मापदण्डों के अनुसार सम्बन्धित प्राध्यापकों को SOP और MS Excel का वितरण किया गया, जिससे कि आकड़ों का संग्रह, प्रमाण-पत्रों एवं अन्य कायक्रमों का संग्रहीत किया जाय।
- 2- मापदण्डों में जिस भी मापदण्ड का अधिलेख नहीं है उनका उल्लेख करना है।
- 3- प्राध्यापकों को अधिलेखों को संरक्षित रखने एवं लिखित कार्य हेतु मिस्ट फाईल कवर-01, राफिलर-01, A-4 कागज निर्गत किया गया।
- 4- ~~प्राध्यापकों~~ सभी सदस्यों द्वारा विभिन्न मापदण्डों पर किये जा रहे कार्य के अन्तर्गत प्रत्येक Key-Indicators के सम्बन्ध में सूचना का उल्लेख किया जाय।
- 5- किसी भी मापदण्ड से सम्बन्धित किसी भी Key-Indicators में कोई भी समस्या

आती है तो उक्त पर अगली बैठक में चर्चा किया जायेगा।

6- IQAC की अगली बैठक दिनांक 15-11-2022 को प्राचार्य की अध्यक्षता में प्रस्तावित है।

बैठक में उपाध्यक्ष सदस्य

*Pr*  
11-11-22

Co-ordinator  
IQAC

01- श्री खंडीप कुमार - *Sum*

02- डॉ० दिनेश चन्द्र - *Pr*

03- डॉ० मधु बाला जुवाँठा - *Pr*

04- श्री चतुर सिंह - *Pr*

*Pr*  
11-11-2022

*Seen  
Sum.in*

Co-ordinator  
(IQAC)

Principal  
Govt Degree College  
Nainbagh, (Tara, Garhwal)



### **IQAC MEETING REPORT (2022-23/3)**

**Date- 15-16 November 2022**

A meeting was held by IQAC/NAAC coordinator under chairmanship of Principal Prof. Sumita Srivastava with all the members of IQAC on 15 and 16 November 2022. After welcoming all the members, IQAC coordinator Shri Parmanand Chauhan put forward the agenda of the meeting, which was to prepare metric-wise plan of the year for quality enhancement of college for NAAC accreditation in each criteria. The following points and activities were focused in the meeting:

1. Under metric 1.2.1, to start value added courses on Basics of computer, Yoga, Organic farming and Tourism.
2. Under metric 1.3.2, Internal assessment of students would be based on field work or project.
3. Under metric 1.4.1, to collect the online feedback with the help of Google form from regular students, alumni, parents, teachers and employers. To upload feedback form link on college website.
4. Under metric 2.3.1, all the teachers were directed to use ICT in teaching-learning process regularly using smart class and other tools to ensure the quality in teaching. To prepare open source study materials by preparing youtube channel for video lectures, use of Google classroom and sharing pdf notes.
5. Under metric 2.3.1, to take internal assignment based on field work report, written exam, quiz etc.
6. Under metric 2.7.1, to prepare students for filling Google form.
7. Under metric 3.1.1, teachers were encouraged to make efforts for approval of research projects and to organize lecture on 'Resource mobilization through funding agencies'.
8. Under metric 3.2.2, to organize workshop/seminar on research methodology, skill development and IPR.
9. Under metric 3.3.1, to publish at least one research paper every year in UGC care list journals by every teacher, contributing chapters in the book, writing books and publishing research papers in national or international magazine.
10. Under metric 3.4.1, to increase extension and outreach activities in local community every department was assigned with one work in college campus and in community at local level along with students under Mahatma Gandhi National Council for Rural Education (MGNCRE). Sanitation and hygiene – Sociology and English; waste



## Government Degree College Nainbagh

N. G. Road Nainbagh (Tehri Garhwal)-249186, Uttarakhand  
(Affiliated to Sri Dev Suman Uttarakhand University, Badshahithaul, Uttarakhand)  
Website: <http://gdcnainbagh.in> Email: [principalgdcnainbagh2001@gmail.com](mailto:principalgdcnainbagh2001@gmail.com)

management – history, water management – Geography; energy management – economics; greenery and organic farming – political science.

11. Under metric 4.3.1, to make efforts for availability of internet connection in the college.
12. Under metric 5.1.2, to organize programs on soft skill, life skill and personality development and to start computer course for supporting students.
13. Under metric 5.1.3, office was directed to maintain the record regarding admission of students in other institutes during issue of T.C. and C.C. to students.
14. Under metric 5.1.4, to upload student's grievance submission form on college website, so that students may submit their grievance online also.
15. Under metric 5.2.1, to maintain record for students' progression and to make contact with passed out students.
16. Under metric 5.3.2, to organized cultural activities in college based on local dress, food, folk songs and folk dance to conserve the local culture. To organize two days annual sports activities in the college.
17. Under metric 5.4.1, to make an alumni organization, to be in contact with the alumni of the college and assure their participation in certain activities of college.
18. Under metric 6.2.2, to make efforts for online admission of students in coming academic session 2023-24.
19. Under metric 6.5.1, there should be regular meeting of IQAC. IQAC should prepare annual report of the college.
20. Under metric 6.5.2, IQAC must take quality initiatives and collaborate with other institutes also.
21. Under metric 7.1.1, to organize activities based on gender equity and to celebrate at least three national or international days by each department every year to inculcate social responsibility and human values.
22. Each department will complete minor elective course online.
23. Each department will accomplish the work assigned through MGNCRE under departmental association.







**Government Degree College Nainbagh**  
**N. G. Road Nainbagh (Tehri Garhwal)-249186, Uttarakhand**  
(Affiliated to Sri Dev Suman Uttarakhand University, Badshahithaul, Uttarakhand)  
Website: <http://gdcnainbagh.in> Email: [principalgdcnainbagh2001@gmail.com](mailto:principalgdcnainbagh2001@gmail.com)

---

Meeting was ended with vote of thanks expressed by IQAC coordinator Shri Parmanand Chauhan. Following members were present in the meeting.

1. Shri Parmanand Chauhan- IQAC Coordinator
2. Dr. Brish Kumar
3. Shri Sandeep Kumar
4. Dr. Dinesh Chandra
5. Dr. Madhu Bala Juwantha
6. Sri Chattar Singh

  
IQAC Coordinator

  
Principal

बैंक-03 / 2022-23

दिनांक 15 एवं 16 नवम्बर 2022

को प्राचार्य की अध्यक्षता में IQAC कक्ष में NAAC प्रक्रिया की समीक्षा बैंक-IQAC सदस्यों के साथ आयोजित की गई। बैंक में बैंक के स्तर मानदण्डों (Criteria) के अनुसार महाविद्यालय हेतु वार्षिक कार्य योजना (Plan of the Year) तैयार किया गया, जो निम्नानुसार है—

01- मेट्रिक 1.2.1 (Academic Flexibility) के लिए निम्नलिखित कोर्स को संचालित करना -

- a- Basics of Computer (30 hrs) Course  
— Parmanand Chauhan  
(Subject Co-ordinator)
- b- YOGA — Sandeep Kumar  
(Subject Co-ordinator)

अन्य -

a- पर्यटन (Tourism)

b- Organic Farming (जैविक खेती)

(उक्त कोर्स मेट्रिक 1.2.2 के लिए भी कार्य करेगा।)

02- मेट्रिक 1.3.2 के लिए सभी शिक्षक आंतरिक मूल्यांकन हेतु अक्टूबर 2022 के लिए Field work / Project आधारित कार्य Assign किए जाएंगे।

03- मेट्रिक 1.4.1 (Feedback System) के लिए नियमित छात्रों, पुरातन छात्रों, आभेकावकों से feedback form पूरित कराना है।

सभी से Email प्राप्त कर उन्हें गूगल फार्म के माध्यम से feedback form उपलब्ध कराना। महाविद्यालय की वेबसाइट पर फीडबैक फार्म का लिंक उपलब्ध कराना तथा सम्बन्धितों को उस लिंक के माध्यम से फीडबैक प्राप्त करना।

04- मेट्रिक 2.3.1 (Teaching Learning Process) के लिए सभी शिक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि अध्यापन कार्य में अधिक से अधिक ICT का प्रयोग करें। सप्ताह में कम से कम एक बार आवश्यक ही ICT के माध्यम से शिक्षण कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त निम्न कार्य पर जोर देना है—

- a- सभी शिक्षक अपना यू-यूट्यूब चैनल बनाएं।
- b- गूगल क्लास रूम बनाना।
- c- PDF के माध्यम से नोट तैयार कर छात्रों को प्रेषित करना।

05- मेट्रिक 2.5.1 (Evaluation Process and Reforms) के लिए आंतरिक मूल्यांकन के अन्तर्गत फीडबैक, लिखित परीक्षा, क्वीज आदि गतिविधियों का आयोजन करना।

06- मेट्रिक 2.7.1 (Student Satisfaction Survey) के लिए वर्तमान में पंजीकृत छात्रों से MS Excel में तालिकानुसार ऑनलाइन सर्वे फार्म गूगल फार्म के माध्यम से भ्रवना।

07- मेट्रिक 3.1.1 (Resource Mobilization for Research) के लिए महाविद्यालय के प्राध्यापकों द्वारा शोध प्रोजेक्ट प्राप्त करना है। वित्त पोषण हेतु कार्यरत एजेंसीयों पर व्याख्यान का आयोजन करना।

08- मेट्रिक 3.2.2 के लिए वर्कशॉप / सेमिनार / शोध प्रसिद्धि पर कार्यशाला / उद्यमिता पर वर्कशॉप आदि का महाविद्यालय द्वारा आयोजन करना।

09- मेट्रिक 3.3.1 (Research Publication and Awards) के लिए सभी प्राध्यापकों द्वारा वर्ष में कम से कम एक शोध पत्र प्रकाशित करना। राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में शोध पत्र, किताब, चैप्टर आदि का संपादन करना।

~~09~~  
10- मेट्रिक 3.4.1 (Extension Activities) के लिए स्थानीय स्तर पर छात्रों के माध्यम से जन-जागरूकता हेतु निम्नलिखित पहलुओं पर कार्य करना -

a- अपशिष्ट प्रबन्धन (Waste Management)

- डॉ. दिनेश चन्द्रा

(भा.वि. प्रो. - इतिहास)

b- हाथियाली / जैविक खेती (Greenary/Organic Farming)

- डॉ. मधु बाला पुवाँडा

(भा.वि. प्रो. - राजनीति विज्ञान)

## C - स्वच्छता एवं सफाई (Hygiene & Sanitization)

— श्री संदीप कुमार

(भाषि. प्रौ. - समाजशास्त्र)

- 11- मेट्रिक 4.3.1 (IT Infrastructure) के लिए महाविद्यालय द्वारा इंटरनेट (Internet) कनेक्शन कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराना।
- 12- मेट्रिक 5.1.2 (Student Support) के लिए Soft Skill में Computer Course का संचालन किया जाय। व्याप्त विकास के लिए व्याख्यान का आयोजन करना।
- 13- मेट्रिक 5.1.3 के लिए छात्र द्वारा महाविद्यालय से T.C एवं C.C निर्गत करते समय निर्गत कराने का कारण भी आर्गुमेंट में दर्ज हो।
- 14- मेट्रिक ~~5.1.4~~ 5.1.4 के लिए छात्रों के व्याप्त समस्याओं के लिए ग्रीवांस समिति तैयार करना है। वेबसाइट पर भी ग्रीवांस के लिए लिंक तैयार करना जिससे कि छात्र-छात्रों ऑनलाइन भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकें।
- 15- मेट्रिक 5.2.1 (Student Progression) के लिए महाविद्यालय से स्नातक पूर्ण करने के पश्चात् पिन पाठ्यक्रमों में जा रहे हैं उनका विवरण तैयार करना। (इसके लिए T.C & C.C निर्गत करते समय छात्रों का उद्देश्य आर्गुमेंट में दर्ज करना है।)

- 16- मेट्रिक 5.3.2 (Student Participation and Activities) के लिए स्वयंसेवक, परिधानों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना।
- 17- मेट्रिक 5.4.1 (Alumni Engagement) के लिए पुराने छात्र संगठन बनाना तथा संगठन से आर्थिक या अन्य प्रकार का सहयोग प्राप्त करना।
- 18- मेट्रिक 6.2.2 (Strategy Development and Deployment) के लिए छात्रों के प्रस्तावों को ऑनलाइन माध्यम प्रारम्भ करना।
- 19- मेट्रिक 6.5.1 (Internal Quality Assurance System) के लिए IQAC द्वारा सैल्यू का वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना चाहिए। IQAC का नियमित मीटिंग करना।
- 20- मेट्रिक 6.5.2 के लिए IQAC का नियमित मीटिंग करना एवं फीडबैक फार्म का विश्लेषण करना।
- 21- मेट्रिक 7.1.1 (Institutional Values and Social Responsibilities) के लिए लैंगिक समानता (Gender Equity) दिवस मनाया है। प्रत्येक विभाग द्वारा वर्ष में कम से कम तीन राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया है।

22- सखी विभाग द्वारा माइनर इलेक्ट्रिक कोर्स ऑनलाइन पूरा किया जायेगा।

23- समस्त विभाग द्वारा विभागीय परिषद की ओर से MGNRE (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा) के अन्तर्गत आवंटित कार्यों को सम्पादित किया जायेगा।

बैठक में उपस्थित सदस्यगण:

- 01- डॉ. श्रीश कुमार - h
- 02- श्री संदीप कुमार - Bun
- 03- डॉ. दिनेश चन्द्र - Shivendra
- 04- डॉ. मधु बाला जुवाँडा - MK
- 05- श्री चतर सिंह - Ch

h

समन्वयक (IQAC)

Sumita

Principal  
Govt. Degree College  
Nainbagh (Tehri Garhwal)

नैक प्रक्रिया के तहत विभिन्न प्राध्यापकों द्वारा स्तरीय मानदण्डों पर कार्य किये जा रहे हैं। कार्य में शीघ्रता लाने हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया जाता है — समिति सम्बन्धित मानदण्ड का द्वारा संप्रति वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक का करेगी।

01- मानदण्ड 1 और 2 :

- I- श्री संपीप कुमार - संपीपक — *[Signature]*  
 II- श्री सुशील चन्द्र - *[Signature]*

02- मानदण्ड 3 और 4 :

- I डॉ० मधु बाला जुवाँठा - संपीपक *[Signature]*  
 II श्री विनोद कुमार (सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष) *[Signature]*

03- मानदण्ड 5 और 6 :

- I डॉ० दिनेश चन्द्र - संपीपक — *[Signature]*  
 II श्री भुवन चन्द्र *[Signature]*

04- मानदण्ड 7 :

- I श्री चतर सिंह - संपीपक *[Signature]*  
 II श्री दिनेश पंवार *[Signature]*

(नोट : उपरोक्त समिति माह दिसम्बर 2022 तक द्वारा संकलन का कार्य पूर्ण करेगी।)

*[Signature]*

समन्वयक (IQAC)

*[Signature]*

Principal

Govt Degree College  
Nainbagh (Tehri Garhwal)





**IQAC MEETING REPORT (2022-23/4)**

**Date- 13-12-2022**

Under the chairmanship of the principal a review meeting of IQAC was held on 13 December 2022 with all the teaching and non-teaching staff of the college. IQAC coordinator Shri Parmanand Chauhan welcomed all the members. The agenda of the meeting was to review the progress achieved in NAAC seven criteria. The following decisions were taken in the meeting:

1. To start value added certificate course of 30 hours entitled "Basics of computer" for the students with fee of Rs. 200/- only. The following committee will lead to the course:
  - Convener: Shri Parmanand Chauhan
  - Member: Dr. Madhu Bala Juwantha
  - Member: Shri Vinod Kumar
2. To start certificate course on Intellectual Property Rights (IPR) under the value-added course. Course will be organized by the following committee:
  - Convener: Dr. Brish Kumar
  - Member: Shri Sandeep Kumar
  - Member: Dr. Dinesh Chandra
3. The organization of National seminar on Effective Implementation of NEP 2020 was proposed.
4. To organize a program on Digital awareness for students.
5. All members of IQAC/NAAC will complete the work of related criteria as the earliest.
6. Compete IQAC committee was formed incorporating all the stakeholders.

Meeting was ended with vote of thanks expressed by IQAC coordinator Shri Parmanand Chauhan. Following members were present in the meeting.

1. Shri Parmanand Chauhan- IQAC Coordinator
2. Dr. Brish Kumar
3. Shri Sandeep Kumar
4. Dr. Dinesh Chandra
5. Dr. Madhu Bala Juwantha
6. Sri Chattar Singh
7. Smt. Reshma Bisht



## Government Degree College Nainbagh

N. G. Road Nainbagh (Tehri Garhwal)-249186, Uttarakhand  
(Affiliated to Sri Dev Suman Uttarakhand University, Badshahithaul, Uttarakhand)  
Website: <http://gdcnainbagh.in> Email: [principalgdcnainbagh2001@gmail.com](mailto:principalgdcnainbagh2001@gmail.com)

---

8. Shri Vinod Kumar
9. Shri Sushil Chandra
10. Shri Dinesh Panwar
11. Shri Bhuwan Chandra

IQAC Coordinator

Principal

बैठक - 4 / 2022-23, 150-13-12-2022

दिनांक - 13-12-2022 को प्राचार्य एवं समन्वयक (IQAC) की अध्यक्षता में बैठक प्रक्रिया के लिए कार्य किये जा रहे स्नातक मानदण्डों की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में प्राध्यापक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक में निम्नलिखित निर्णय किये गये -

- 1- कम्प्यूटर कोर्स (Basics of Computer) 30 घंटे का प्रारम्भ करना है।  
संचालन समिति - श्री परमानन्द चौहान - *pc*  
श्री विनोद कुमार - *pc*  
डॉ० मधु बाला जुवाँडा - *pc*  
(कोर्स के लिए शुल्क ₹ 2000 मात्र होगा)
- 2- बौद्धिक सम्पदा अधिकार (IPR) का सर्टिफिकेट कोर्स प्रारम्भ करना है।  
संचालन समिति - डॉ० ब्रिज कुमार - *pc*  
श्री संदीप कुमार - *pc*  
डॉ० दिनेश चन्द्र - *pc*  
(कोर्स के लिए शुल्क ₹ 2000 मात्र)
- 3- अप्रैल 2023 में "Effective Implementation of NEP-2020" विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन प्रस्तावित है।
4. छात्रों के लिए Digital Awareness program दिसम्बर 2022 में आयोजित करना है।
- 5- IQAC के सभी सदस्य अपने-अपने मानदण्ड से सम्बन्धित डेटा संग्रह का कार्य

आति ~~विश्व~~ शीघ्र सम्पन्न करेंगे। बैंक की अगली बैठक दिसम्बर 2022 के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है।

6- IQAC संरचना का गठन किया गया जो निम्न प्रकार है

The composition of the IQAC -

1- अध्यक्ष — प्रो. सुमिता श्रीवास्तव, प्राचार्य

2- सभी स्तरों पर प्रतिनिधित्व करने वाले शिक्षक -

- I- डॉ. ब्रिज कुमार
- II- श्री संदीप कुमार
- III- डॉ. दिनेश चन्द्र
- IV- डॉ. मधुबाला जुवाँठा
- V- श्री चतर सिंह

3- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी -

- I- श्रीमती रेशमा बिष्ट
- II- श्री विनोद कुमार (सहाय्यक)

4- स्वयंसेवक समाज से नामित -

श्री कुन्दन सिंह पंवार (हार्थि पंडित)

II- नियमित छात्र -

बी० ए० सेमेस्टर-1 (2022-23)

कु० प्रिया (श्री आशा एम) मो० - 9410704237

अंकुश (श्री गणेश लाल) मो० - 7465001443

बी० ए० द्वितीय वर्ष (2022-23) -

कु० अंचल (श्री श्याम) मो० - 9389428114

अजय धिमान मो० - 9068023850

(पुत्र श्री संदीप धिमान)

पुरातन छात्र — (Mob-7895676791)  
 महेशा सिंह तोमर, अध्यक्ष (पुरातन छात्र संगठन)  
 राजमोहन सिंह रावत, सचिव (पुरातन छात्र संगठन)  
 (Mob-9027719606)

5- शैजगार प्रदाता नामित —  
 श्री विरेन्द्र शर्मोला, उपाध्यक्ष, व्यापार मंडल, नैनबाग  
 नामित हितधारक — अध्यक्ष, शिक्षक आर्थिकवाचक संघ  
 उद्योगपति/दाहसी/उद्यमी — श्री अर्जुन सिंह कुंवर  
 उद्योगपति/दाहसी/उद्यमी

6- समन्वयक, IQAC —  
 परमानन्द चौहान

बैंक में उपाध्यक्ष सदस्य —

- 1- डॉ० श्रीश कुमार —
- 2- श्री संधीप कुमार —
- 3- डॉ० दिनेश चन्द्र —
- 4- डॉ० मधु बाला जुवाँठा —
- 5- श्री चतर सिंह —
- 6- श्री मती रेशमा बिष्ट —
- 7- श्री विनोद कुमार —
- 8- श्री सुशील चन्द्र —
- 9- श्री दिनेश पंवार —
- 10- श्री कुवन चंद्र —

Co-ordinator  
 IQAC / NAAC

Principal  
 Govt. Degree College  
 Nainbag, Tehri Garhwal



**Government Degree College Nainbagh**  
N. G. Road Nainbagh (Tehri Garhwal)-249186, Uttarakhand  
(Affiliated to Sri Dev Suman Uttarakhand University, Badshahithaul, Uttarakhand)  
Website: <http://gdcnainbagh.in> Email: [principalgdcnainbagh2001@gmail.com](mailto:principalgdcnainbagh2001@gmail.com)

### IQAC MEETING REPORT (2022-23/5)

Date: 05-01-2023


Under the chairmanship of the principal a meeting of IQAC was held on 05 January 2023 with all the stakeholders nominated in IQAC committee and students. IQAC coordinator Shri Parmanand Chauhan welcomed all the members. The agenda of the meeting was to introduce NAAC process among all the stakeholders. Following minutes were recorded in the meeting.


1. NAAC process in detail was introduced to all the stakeholders by Principal Prof. Sumita Srivastava.
2. Seven criteria of assessment were presented by each teacher responsible for that criterion and vibrant discussions were made with all the members.
3. To discuss the Quality enhancement initiatives were discussed for fulfilling the gap in A & A process. The action plan and progress achieved in this direction was told to all the stakeholders mentioned in previous meetings.
4. The suggestions given by stakeholders were noted to incorporate in further action of IQAC.
5. All the members present in the meeting were requested to encourage the students for attending the college on regular basis.

Meeting was ended with vote of thanks expressed by IQAC coordinator Shri Parmanand Chauhan. Following members were present in the meeting.

1. Complete internal committee of IQAC
2. Shri Arjun Singh Kunwar- President, Parent Teacher Association
3. Shri Virendra Ramola- Representative, local entrepreneur
4. Shri Kundan Singh Panwar- Representative, socially renowned local person
5. Arjun Singh Kaintura – President, Student Association
6. Renuka Vishwakarma – Representative, Alumni Association
7. Govind Raftar - Representative, Alumni Association
8. Students

In total 24 persons attended the meeting.

  
IQAC Coordinator

  
Principal

Meeting - 05 / 2022-23

IQAC meeting with all the stakeholders has been organized on 5 January 2023 in the college seminar hall.

The agenda of the meeting is as follows:

- 1- To introduce NAAC Assessment and Accreditation process to all the members of IQAC.
- 2- To discuss seven criteria of Assessment with gap analysis with members.
- 3- To discuss the quality enhancement initiatives for fulfilling the gap in A & A process.
- 4- Any other off point suggested by the members during the meeting.

Following members were present in the meeting:

- 1- Anam Singh Beemwast Anam Singh
- 2- Vinendra Singh Randa V. Randa
- 3- Kundan Singh Panwar Kundan Singh
- 4- Sandeep Kumar Sandeep

- 5- Bhuvan chandra Dimri - ~~B~~
- 6- Dr. Dinesh chandra ~~Chandra~~
- 7- Chatter Singh - ~~Singh~~
- 8- Aman Singh - ~~Aman~~
- 9- Rajani Bisht - ~~Rajani~~
- 10- Rishika Rawat - ~~R~~
- 11- RANJEETA - ~~Ranjeeta~~
- (12) SHIVANI - ~~Shivani~~
- 13- Sheetal B.A. II - ~~Sheetal~~
- (14) Shivani - Shivani
- (15) Ajay Dhiman - ~~Ajay~~
- (16) Ankush - ~~Ankush~~
- 17- Anjan Singh Kaintura - ~~Anjan~~
- 18- Km. Swati - ~~Swati~~
- 19- Puneet - Puneet
- 20- Govind Rajtar - Ex president G.D.C. Nainbagh (T.G.)
- 21- Ansh Singh - ~~Ansh~~
- 22- Sughi Chandra - ~~Sughi~~
- 23- Vinod kumar - ~~Vinod~~
- 24- Renuka Vishwakarma - ~~Renuka~~



Following minutes were recorded in the meeting:

- 1- NAAC process in detail was introduced to all the stakeholder by Principal Prof. Sumita Srivastava.
- 2- Seven criteria of assessment were presented by each teacher responsible for that criterion and vibrant discussion were made with all the members.
- 3- To discuss the quality enhancement initiatives were discussed for fulfilling the gap in A & A process. The action plan and progress achieved in this direction was told to all the stakeholder mentioned in previous meeting.
- 4- The suggestions given by stakeholders were noted to incorporate in further action of IQAC.
- 5- All the members present in the meeting were requested to encourage the students for attending the college on regular basis.

Prnl

Coordinator  
IQAC/NAAC

Sumita

Principal  
Govt. Degree College  
Nainbagh (T. Garhwal)



**Government Degree College Nainbagh**  
N. G. Road Nainbagh (Tehri Garhwal)-249186, Uttarakhand  
(Affiliated to Sri Dev Suman Uttarakhand University, Badshahithaul, Uttarakhand)  
Website: <http://gdcnainbagh.in> Email: [principalgdcnainbagh2001@gmail.com](mailto:principalgdcnainbagh2001@gmail.com)

### IQAC MEETING REPORT (2022-23/6)

Date: 13-03-2023

Under the chairmanship of the principal Prof. Sumita Srivastava a review meeting of IQAC was held on 13 March 2023. IQAC coordinator Shri Parmanand Chauhan welcomed all the members. Each team presented their progress report on the given criteria for NAAC evaluation. Discussions were made with all the members of IQAC/NAAC for further quality achievement during NAAC process.

Meeting was ended with vote of thanks expressed by IQAC coordinator Shri Parmanand Chauhan. Following members were present in the meeting.

1. Shri Parmanand Chauhan- IQAC Coordinator
2. Dr. Brish Kumar
3. Shri Sandeep Kumar
4. Dr. Dinesh Chandra
5. Dr. Madhu Bala Juwantha
6. Sri Chattar Singh
7. Shri Vinod Kumar







IQAC Coordinator

Principal


Meeting - 06 / 2022-23

A meeting has been organized on 13 March 2023 in the IQAC room with all members and co-members of NAAC under the headship of Principal. All members presented their work progress on pertaining criteria. Discussion occurred with the all members of NAAC for further better preparation of NAAC.

NAAC members have been presented in foregoing meeting as follows -

- 1- Dr. Brish Kumar - 
- 2- Shri Sandeep Kumar - 
- 3- Dr. Dinesh Chandra - 
- 4- Dr. Madhu Bala Tiwari - 
- 5- Shri Chatter Singh - 
- 6- Shri Vinod Chahar - 

13-03-2023  
Coordinator  
NAAC

  
Principal  
Govt. Degree College  
Nainbagh (Tehri Garhwal)



**IQAC MEETING REPORT (2022-23/7)**


Date: 24-05-2023


A meeting with all the stakeholders of IQAC was held on 24 May 2023 under the chairmanship of the principal Prof. Sumita Srivastava. IQAC coordinator Shri Parmanand Chauhan welcomed all the members and introduced the agenda of the meeting. The agenda of the meeting was to make aware all the stakeholders about the action taken by the college for quality enhancement in the last five years. Following minutes were recorded in the meeting.

1. Principal Prof. Sumita Srivastava presented the five year progress report of the college to all the stakeholders with power point presentation. She discussed the strength, weakness, opportunities and challenges (SWOC) of the college and invited the suggestions for holistic development of the college.
2. IQAC Nominee of local society Shri Kundan Singh Panwar has suggested taking initiative for local language promotion and its conservation.
3. To encourage the students for their regular attendance in classrooms so that they can take advantage of quality education.
4. To ensure the contribution of alumni association in college progression.
5. All teachers should make their own YouTube channel and to complete maximum curriculum using various ICT tools.

Meeting was ended with vote of thanks expressed by IQAC coordinator Shri Parmanand Chauhan. Following members were present in the meeting.

1. Complete internal committee of IQAC
2. Shri Arjun Singh Kunwar- President, Parent Teacher Association
3. Shri Kundan Singh Panwar- Representative, socially renowned local person
4. Arjun Singh Kaintura – President, Student Association
5. Shri Mahesh Tomar – Secretary, Alumni Association
6. Students representatives

  
IQAC Coordinator

  
Principal

Date 24-05-2023  
meeting-07 / 2022-23

A meeting with all the stakeholders of IQAC was held on 24 May 2023 under the chairmanship of the principal. In this meeting, principal shared about strength, weakness, opportunities and challenges (SWOC) of the college with the stakeholders of IQAC through the Powerpoint. The main points of the meeting are written below:

- 1- To share the SWOC of the college with the all stakeholders of IQAC and finding suggestions for holistic development of the college.
- 2- Nominnee of local society of IQAC shri Kundan Singh Rawar has suggested to taking initiative for local language promotion.
- 3- To ensure the attendance of students in classrooms daily basis so that quality education can be made available to all.
- 4- To ensure the contribution of alumni association in college

2023-2024

APPU

DATE \_\_\_\_\_

PAGE \_\_\_\_\_

progression.

S- All teachers are to make own YouTube channel and to be complete maximum curriculum using ICT.

for  
Coordinator  
IQAC/NAAC

Sumita  
Principal  
Govt Degree College  
Nainbag (Jharkhand)

IQAC Meeting 24 May 2023

APPU

DATE 16-05-2023

PAGE \_\_\_\_\_

IQAC बैठक (Meeting) 24 May 2023  
उपस्थित (Presenting)

| क्र.सं. | नाम                | मोबाईल नं० | व्यवसाय        | हस्ताक्षर   |
|---------|--------------------|------------|----------------|-------------|
| 1       | रेशमा बिष्ट        | 9761241137 | -              | Rashmi      |
| 2       | (कुन्दनसिंह पंवार) | 9411313306 |                | Kundansingh |
| 3       | Dr. Brijish Kumar  | 9411511139 | Teacher        | Brijish     |
| 4       | DR. Dinesh Chandra | 9639397085 | Teaching       | Dinesh      |
| 5       | Chattar Singh      | 9012659368 | Teacher        | Chattar     |
| 6       | Vinod Kumar        | 9456312216 | -              | Vinod       |
| 7       | Bhuvan Chandra     | 8126316799 | Lab. Assistant | Bhuvan      |
| 8       | MAHESH S. TOMAR    | 7895676791 | -              | Mahesh      |
| 9       | Deepak Singh       | 9675319171 | Lab. Clerk     | Deepak      |
| 10      | Arjun Kumar        | 8384865369 | -              | Arjun       |
| 11      | Roshan Singh Rawat | 9411572429 | Anusevak       | Roshan      |
| 12      | विदुषी             | 9149361943 | Student        | Vidushi     |
| (13)    | अंज                | 7017458789 | Student        | Anji        |
| 14      | Shivani            | 6396639929 | Student        | Shivani     |
| 15      | Renuka             | 7536840732 | -              | Renuka      |
| 16      | Rishika            | 7668201314 | Student        | Rishika     |
| 17      | Sheetal            | 9528096707 | "              | Sheetal     |
| 18      | Puneet             | 7895511443 | "              | Puneet      |
| 19      | Ajay Dhiman        | 9068023850 | "              | Ajay        |
| 20      | Sanjay Rawat       | 8126980811 | -              | Sanjay      |
| 21      | Raveena            | 8630088534 | STUDENT        | Raveena     |
| 22      | Vineeta            | 6396897845 | Student        | Vineeta     |
| 23      | सुमि               | 9528140293 | " "            | Sumita      |

Coordinator  
IQAC/NAAC

Principal  
Gandhi College  
(Arwal)





### **Action Taken Report- 2022-23**

Date: 30 May 2023

The following steps were taken to achieve the objectives of minutes of various meetings of IQAC in the session 2022-23.

1. In the session 2023-24 college will apply for NAAC Accreditation.
2. All the required data for NAAC Accreditation were collected.
3. Value added course on "Basics of Computer for 30 hours was completed successfully.
4. In internal assessment, assignment of 10 marks were distributed among students on field work on contemporary social and environmental issues.
5. Online feedback through google form were collected from regular students, alumni, teachers, employers and parents.
6. Workshop on teaching learning through ICT was conducted for teachers. All the teachers are using ICT tools in teaching learning.
7. Digital literacy programs were organized for students.
8. Several workshops, seminars on skill development career counselling, life skill, etc. were organized for students.
9. An online faculty development program on "Research Methodology" was organized.
10. Several outreach program through NSS, anti-drug cell and MGNCRE (Mahatma Gandhi National Council for Rural Education) were conducted in adopted village Tator and other nearby villages.
11. College website was updated regularly.
12. Many local government and non-government agencies were collaborated in college activities.
13. Online admission was started on Samarth portal for the session 2023-24.
14. Annual sports and cultural programs were organized.
15. NAAC Accreditation process was discussed with all the stakeholders.
16. Students completed informal internship program with local government body nearby their residence during winter vacation and submitted the report successfully.

  
**Coordinator- IQAC/NAAC**  
**Government Degree College**  
**Nainbagh, Tehri Garhwal**

  
**Principal**  
**Government Degree College**  
**Nainbagh, Tehri Garhwal**





**Government Degree College Nainbagh**  
N. G. Road Nainbagh (Tehri Garhwal)-249186, Uttarakhand  
(Affiliated to Sri Dev Suman Uttarakhand University, Badshahithaul, Uttarakhand)  
Website: <http://gdenainbagh.in> Email: [principalgdcnainbagh2001@gmail.com](mailto:principalgdcnainbagh2001@gmail.com)

### IQAC MEETING REPORT (2021-22/1)


Date- 06-09-2021


A meeting was held by the principal on 06 September 2021 to review of NAAC progress. All members of IQAC discussed about NAAC process and presented their progress report before the principal. The following points were focused in the meeting:

1. To prepared progress report of the college by 15 September 2021.
2. Collection of time-table, lest of holidays, curriculum, students' attendance register, results of examinations for last five years.
3. Collection of record of student's union election for the last five years.
4. To prepare the details of student's fund.
5. To collection of students feedback for last five years.
6. To prepare and publish magazine of the college.

To prepare and publish magazine of the college:

1. Dr. Manoj Kumar- IQAC Coordinator
2. Dr. Brish Kumar
3. Shri Parmanand Chauhan
4. Shri Sandeep Kumar
5. Dr. Dinesh Chandra
6. Dr. Madhu Bala Juwantha
7. Smt. Reshma Bisht (Administrative Officer)

  
IQAC Coordinator

  
Principal

बैंक - 01 / 2021-22

आज दिनांक - 06-09-2021 को प्राचार्य की अध्यक्षता में IQAC की प्रगति समीक्षा हेतु बैंक आहूत किया गया। बैंक समिति के सभी सदस्य उपाध्यक्ष द्वारा बैंक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर सहमति बनी -

- 1- महाविद्यालय की प्रगति आख्या तैयार करना (दिनांक 15-09-2021 तक)।
- 2- विगत 5 वर्षों का समय सारणी, अवकाश सूची, पाठ्यक्रम, छात्र-छात्रों की उपाध्यक्ष पंजीक, परीक्षा परिणाम संकलित करना।
- 3- छात्र निधि खातों का आय-व्यय विवरण।
- 4- विगत पांच वर्षों का छात्र संघ चुनाव से सम्बन्धित विवरण का संकलन।
- 5- समस्त विभागों को एक कम्प्यूटर उपलब्ध कराना।
- 6- समस्त समितियों के संयोजक अपने समिति से सम्बन्धित क्रिया कलापों का विवरण (विगत पांच वर्षों का संकलन)।
- 7- छात्रों का फ्रीडबैक फार्म विगत पांच वर्षों का प्राप्त करना है (ऑनलाइन)।

8- बैंक का अगला बैंक दिनांक 15-09-2021 को होना है।

9- महाविद्यालय की पत्रिका प्रकाशित करना।

उपासीत सदस्य-

- 1- डॉ० मनोज कुमार - *MS*
- 2- डॉ० श्रीश कुमार - *M*
- 3- परमानन्द चौधन - *PC*
- 4- श्री संदीप कुमार - *SK*
- 5- डॉ० दिनेश चन्द्रा - *DC*
- 6- डॉ० मधुबाला जुवाँठा - *MJ*
- 7- श्रीमती रेशमा खिण्ड - *RK*

*(Signature)*

Principal  
Govt. Degree College  
Nainbag, Garhwal



**Government Degree College Nainbagh**  
N. G. Road Nainbagh (Tehri Garhwal)-249186, Uttarakhand  
(Affiliated to Sri Dev Suman Uttarakhand University, Badshahithaul, Uttarakhand)  
Website: <http://gdcnainbagh.in> Email: [principalgdcnainbagh2001@gmail.com](mailto:principalgdcnainbagh2001@gmail.com)

### IQAC MEETING REPORT (2021-22/2)


Date- 28-09-2021


A meeting of the IQAC committee was held in the chairmanship of the principal on 28 September 2021 to discuss the permanent affiliation process with the university. IQAC coordinator Dr. Manoj Kumar welcomed all the members of IQAC and introduced the agenda of the meeting to all. The major agenda was affiliation and publication of magazine. The following points were focused in the meeting:

1. To take initiative for permanent affiliation of the college with Sri Dev Suman Uttarakhand University.
2. To make an action plan for publishing the magazine of the college.
3. To complete the proof reading of articles of teachers, students and other stakeholders and report confirm to IQAC.

Meeting was ended with vote of thanks expressed by IQAC coordinator Dr. Manoj Kumar. Following members were present in the meeting.

8. Dr. Manoj Kumar- IQAC Coordinator
9. Shri Parmanand Chauhan
10. Shri Sandeep Kumar
11. Dr. Dinesh Chandra
12. Dr. Madhu Bala Juwantha
13. Sri Chaattar Singh
14. Smt. Reshma Bisht (Administrative Officer)
15. Sri Vinod kumar (Assistant Librarian)

  
IQAC Coordinator

  
Principal

बैंक - 02 / 2021-22

दिनांक - 28-09-2021 मंगलवार

आज स्थाई सम्बद्धता (MNB) के पत्र के सम्बन्ध में चर्चा हुई और विभिन्न कॉलेजों को फोन किया गया। शासन को पत्र भेजने की बात कही गई। पत्रिका से सम्बन्धित विद्यार्थियों के आलेख प्राध्यापकों को प्रूफ रीडिंग हेतु दिए गए।

01 मनोज कुमार - मजूमदार

Chatter Singh

02

03 परमानन्द चौहान - मजूमदार

04 संदीप कुमार - मजूमदार

05 डा० हिनेश चन्द्र - (Dhanoo)

6 डा० मधु बाला जुवांटा - मजूमदार

7 रेगमा लिपट - रिवा -

~~मजूमदार~~ विनायक कुमार



**Government Degree College Nainbagh**  
**N. G. Road Nainbagh (Tehri Garhwal)-249186, Uttarakhand**  
(Affiliated to Sri Dev Suman Uttarakhand University, Badshahithaul, Uttarakhand)  
Website: <http://gdcnainbagh.in> Email: [principalgdcnainbagh2001@gmail.com](mailto:principalgdcnainbagh2001@gmail.com)

**IQAC MEETING REPORT (2021-22/3)**


**Date- 08-10-2021**


A meeting of the IQAC committee was held in chairmanship of the IQAC/NAAC coordinator Dr. Manoj Kumar on 08 October 2021 to discuss the progress of the publication of college magazine and to organize orientation program for first year students. IQAC coordinator Dr. Manoj Kumar welcomed all the members of IQAC and introduced the agenda of the meeting to all. The following points were focused in the meeting:

1. One article was rejected for publication in a college magazine.
2. Framework was prepared for conducting orientation program.

Meeting was ended with vote of thanks expressed by IQAC coordinator Dr. Manoj Kumar. Following members were present in the meeting.

1. Dr. Manoj Kumar- IQAC Coordinator
2. Shri Parmanand Chauhan
3. Shri Sandeep Kumar
4. Dr. Madhu Bala Juwantha

  
IQAC Coordinator

  
Principal

ब्लॉक-03/2021-22

दिनांक-08-10-2021

आज दिनांक 08 अक्टूबर 2021 को पत्रिका में छपने वाली सामग्री तैयार करके सभी लोगों ने वापस कर दी। एक आलेख सरकार विरोधी होने के कारण रिजेक्ट कर दिया गया। साथ ही साथ 11-10-2021 को फ़ैरर स्टूडेंट्स के लिए होने वाले ऑरिएंटेशन कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालन हेतु रूप रखा तैयार की गई।

जुलुई (डॉ० मनोप कुमार)

जुलुई  
08-10-2021

(समन्वयक - नेक)

श्री परमानन्द चौहान

डॉ० मधुवाला जुवाँठा

श्री चतर सिंह



**Government Degree College Nainbagh**  
**N. G. Road Nainbagh (Tehri Garhwal)-249186, Uttarakhand**  
(Affiliated to Sri Dev Suman Uttarakhand University, Badshahithaul, Uttarakhand)  
Website: <http://gdcnainbagh.in> Email: [principalgdcnainbagh2001@gmail.com](mailto:principalgdcnainbagh2001@gmail.com)

### **Action Taken Report- 2021-22**

Date: 25 May 2022

To meet the objectives of minutes discussed in the IQAC meeting, following actions have been taken in the session 2021-22.

1. College magazine was published.
2. Time table, holidays lists, curriculum, attendance registers and other documents for five years were collected.
3. Attempts were made for to renew the Affiliation with Sri Dev Suman university, Badshahithaul, Uttarakhand.
4. Soft Skill program was organized for students.

**Coordinator**  
**IQAC/NAAC**  
**Government Degree College**  
**Nainbagh, Tehri Garhwal**

**Principal**  
**Government Degree College**  
**Nainbagh, Tehri Garhwal**